



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

(स्वयंपाठी दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु लेखक लेने बारे प्रार्थना-पत्र का प्रारूप)

परीक्षा केन्द्र कोड : परीक्षा केन्द्र का नाम :

विद्यालय का नाम:.....

जिला : परीक्षा का नाम :

E Mail:Mb. No. विद्यालय कोड

क्रमांक

दिनांक :

सेवा में,

सचिव,

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,

भिवानी।


विषय:-सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2023 के लिए लेखक लेने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अनुक्रमांक नामपुत्र/पुत्री श्री के सम्बन्ध में लिखा जाता है कि परीक्षार्थी (दिव्यांगता श्रेणी)..... होने के कारण स्वयं लिख पाने में असमर्थ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र चक कर लिया गया है जिसके अनुसार परीक्षार्थी% दिव्यांग है, छायाप्रति साथ संलग्न है।


परीक्षार्थी के लिए लेखक लेने हेतु विद्यालय द्वारा कक्षा 9वीं/11वीं के परिणाम/युनिट टैस्ट (SAT), 2/3 परीक्षार्थियों के 2-2 फोटो, दाखिला खारिज रजिस्टर एवं फोटो युक्त 2-2 आई0डी0 प्रुफ की सत्यापित छायाप्रतियां साथ संलग्न कर दी गई हैं। लेखक छात्र/छात्रा के विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

1. नाम पुत्र/पुत्री श्री
कक्षा दाखिला संख्या
आधार नम्बर विद्यालय फोटो आई0डी0




सत्यापित
फोटो

2. नाम पुत्र/पुत्री श्री
कक्षा दाखिला संख्या
आधार नम्बर विद्यालय फोटो आई0डी0



सत्यापित
फोटो

3. नाम पुत्र/पुत्री श्री
कक्षा दाखिला संख्या
आधार नम्बर विद्यालय फोटो आई0डी0



सत्यापित
फोटो

उपरोक्त वर्णित छात्रों में से क्रमांक संख्या पर वर्णित छात्र को दिनांक को आयोजित विषय/विषयों की परीक्षा हेतु लेखन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। सूचनार्थ बोर्ड कार्यालय को प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक
(मोहर सहित)



एक कदम स्वच्छता की ओर



Hansi Road, Bhiwani-127021
www.bseh.org.in



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



Digital India
Power To Empower